

प्रेस नोट

15 हजार का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री विपुल कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के मार्गदर्शन में मुकदमे मे वांछित अभियुक्तो को पकड़ने के लिये चलाये गये अभियान के क्रम मे टीम गठित कर प्र0नि0 बांसगांव श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी व उनकी टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 18/10/2019 को मुखबीर खास द्वारा सूचना मिली की मु0अ0स0 115/19 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त भटवली बाजार डिग्री कालेज तिरहा के पास मौजूद है जो कही भागने के फिराक मे है। इस सूचना पर विश्वास कर मै प्र0नि0 मय फोर्स के साथ डिग्री कालेज तिराहे पहुचा जहां अभियुक्त हम लोगो को देख कर रघुवाडीह के तरफ भागने लगा जिसे घेरा बंदी कर दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम चुड़ामड़ी पाठक उर्फ संजय पुत्र राजेन्द्र पाठक निवासी ग्राम रघुवाडीह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया, जो गगहा के मु0अ0स0 115/2019 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में 15 हजार का इनामी था। अभियुक्त गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

नाम पता अपराधी-

1. चुड़ामड़ी पाठक उर्फ संजय पुत्र राजेन्द्र पाठक निवासी ग्राम रघुवाडीह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 27/2019 धारा 419,420 भा0द0वि0 व 66/67 आईटी एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 227/2018 धारा 419,420 भा0द0वि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 115/2019 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक: - भटवली बाजार डिग्री कालेज तिरहा के पास , दिनांक: 18-10-2019, समय

08:25am

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी, थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री उ0नि0 अम्बरीश बहादुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 मनीष कुमार सिंह थाना-बांसगांव, जनपद -गोरखपुर
4. कां0 पवन कुमार यादव थाना-बांसगांव, जनपद -गोरखपुर
5. का0 अनिल सिंह थाना-बांसगांव, जनपद -गोरखपुर